



U.P. State Rifle Association

8, Gulzar Colony IInd Floor, Newberry Lane, Dalibagh, Lucknow-226001
Telephone : 0522- 2208510, e-mail : upsra_1@hotmail.com, Website : www.upstaterifle.com

AFFILIATED WITH : NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA & U.P. OLYMPIC ASSOCIATION

REGISTERED WITH : REGISTRAR OF FIRMS, SOCIETIES AND CHITS

Duly Approved As Charitable Association Under Section 80G (5) (VI) of Income Tax Act, 1961.

प्रिय होनहार निशानेबाजों,

आशा करता हूँ कि स्वस्थ व खुश होंगे।

इधर सालों से मैं देख रहा हूँ कि इतनी मेहनत पसीना बहाने के बाद शूटर "रिनाउंड शॉट" बन पाता है, और "रिनाउंड शॉट" का सर्टिफिकेट लगाने के बाद भी जब आप शास्त्र लाइसेंस के लिए अर्जी देते हैं तो आसानी से आपका लाइसेंस नहीं बनता। जिला मजिस्ट्रेट के पास चक्कर लगाते हुए, उनकी डांट खाते, उनकी झिड़की खाते, अपमानित होते, परेशान होते हुए, आपको महीने हो जाते हैं फिर भी आपका लाइसेंस मंजूर नहीं होता। कई लोग तो बिचौलिया या वहाँ के प्रभावशाली लोगों लोगों की मदद लेने की कोशिश करते हैं। कुछ तो इस में कामयाब हो जाते हैं लेकिन सारे नहीं। यहां तक कि जल्दी लाइसेंस न बनने के कारण एक साल के भीतर आप उस इवेंट का असलहा, व कारतूस इम्पोर्ट (आयत) नहीं कर पाते जिससे एक बहुत बड़ा चांस खो देते हैं, और आपके मनसूबों पर, आगे की तैयारी पर बड़ा असर पड़ता है।

इससे निजात पाने के लिए मैं, माननीय उच्च न्यायालय में writ of mandamus के लिए यू० पी० स्टेट राइफल एसोसिएशन की तरफ से जा रहा हूँ जहां मुझे माननीय न्यायालय को बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के "रिनाउंड शॉट" आवेदकों को कितनी परेशानी हो रही है। इसके लिए मुझे निम्न सूचनाओं की विस्तार से जरूरत है।

1. "रिनाउंड शॉट" सर्टिफिकेट बनने की तिथि व उसकी फोटो कॉपी।
2. शास्त्र के लिए लाइसेंस आवेदन करने की तिथि।
3. कितनी बार पुलिस अधिकारियों व जिला मजिस्ट्रेट से मिले।
4. उनसे मिलने पर क्या अनुभव/रिजल्ट रहा।
5. क्या आपको किसी ने झिड़का, डाटा, मिलने से मन किया।
6. यदि लाइसेंस बना तो कितने समय बाद।
7. यदि नहीं बना तो आज क्या स्थिति है।
8. क्या लाइसेंस न बनने की वजह से आप इम्पोर्ट नहीं कर पाये?

कृपया अध्यक्ष, यू० पी० स्टेट राइफल एसोसिएशन। 8 - गुलज़ार कॉलोनी, न्यू बेरी लेन, लखनऊ के नाम कहानी लिखते हुए पत्र लिखने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्याम सिंह यादव)

अध्यक्ष, यू० पी० स्टेट राइफल एसोसिएशन, लखनऊ

+91 9319406001

ssyadav9@rediffmail.com